

an>

Title: Need to re-conduct panchayat elections in Pratapgarh in Uttar Pradesh.

**श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशलवी)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश में हो रहे पंचायती चुनाव के विषय में दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में हो रहे पंचायती चुनाव के अंतिम चरण में मेरे लोक सभा शेत्र कौशलवी के प्रतापगढ़ जनपद, तहसील कुंडा में ग्राम आमिपुर, थाना संग्रामगढ़, ग्राम रामनगर, थाना मठेशगंज, कुसाइल बाजार, थाना मानिकपुर में बड़ी मात्रा में धांधली टुकड़े हैं। वहां दर्बन लोगों ने मत पेटियों को लूटा। जब गांव वालों ने विरोध किया तो वहां दंगा टुकड़ा और पुलिस को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी। इस गंभीरता को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने संज्ञान दिया और वहां के एशियाई और डीएम को तत्काल प्राप्त दिया, जिन्हें के अधिकारियों के स्थिताफ कार्रवाई का आवासन दिया। मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले शेत्र के पंचायती चुनाव में भी बड़ी मात्रा में गड़बड़ी टुकड़े हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं, मानवीय गृह मंत्री से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की विश्वास बहुत खराब है। वे तत्काल छरतक्षेप करें और प्रतापगढ़ में जो शेत्र पंचायती चुनाव टुकड़ा है, उसे निररत करके फैशंश चुनाव कराए जाएं।... (व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER:

Shri Sharad Tripathi is permitted to associate with the issue raised by Shri Vinod Sonkar.

...(Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Do not bring State subjects here. It is not to serve any purpose. Let the members to speak in the State Assemblies not here.

...(Interruptions)

**श्री विनोद कुमार सोनकर:** जम अपनी वात कहाँ कहें।... (व्यवधान) वहां काणी ज्यादा आतंक फैला टुकड़ा है।... (व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Law and order is a State subject. It is not good to bring such subjects here.

...(Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: State Assemblies are also there to look into it. I request the hon. Members that we have to follow certain rules. If we bring State Government subjects, then everybody will take this opportunity and criticize the State Governments. It is not fair. We should not discuss like that. You can take any common issue like issues related to Scheduled Caste and Scheduled Tribes of a State. It is all right. But it is meaningless to discuss about State law and order situation. It is not correct.

...(Interruptions)